

## समाजसेवा ईश्वरीय कार्य है- राज्यपाल 17-7-2017

चण्डीगढ, 17 जुलाई: समाजसेवा ईश्वरीय कार्य है। हर मनुष्य एक है और सबमें भगवान विराजमान हैं। इसलिए मानवमात्र की सेवा करना हमारा परम कर्तव्य है। यह बात हरियाणा के राज्यपाल प्रो० कप्तान सिंह सोलंकी ने होटल हयात में आयोजित रोटरी क्लब चण्डीगढ मिडटाऊन के 41वें संस्थापन समारोह में अपने सम्बोधन में कही।

राज्यपाल ने कहा कि रोटरी इंटरनेशनल मानवसेवा के जरिए भारतीय संस्कृति के जीओ और जीने दो व वसुधैव कुटुम्बकम् सिद्धांत को साकार कर रही है। इस संस्था का जन्म अमेरिका में हुआ जिस पर स्वामी विवेकानन्द की अमिट छाप है। उन्होंने 1893 में शिकागो सम्मेलन में विश्व को बताया था कि मानवमात्र का कर्तव्य क्या होना चाहिए। उसी देश में 1905 में रोटरी की शुरूआत हुई जिसकी शाखाएं अब संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्य देशों से भी अधिक 209 देशों में पीडितों के दुख हरने में लगी हैं। उन्होंने कहा कि रोटरी की तरह यदि सब व्यक्ति जीओ और जीने दो को अपना ले तो कहीं भी आतंकवाद नहीं रहेगा और सीमाओं के झगड़े नहीं होंगे। प्रो० सोलंकी ने आगे कहा कि भारतीय संस्कृति का एक और सिद्धांत है अपरिग्रह। इसके अनुसार आज हमारे पास जो कुछ है वह पूरे समाज का है। हमने जो पाया है इसमें समाज का बड़ा योगदान है। इसलिए अपनी जरूरत को पूरा कर शेष सब समाज को देना चाहिए। रोटरी क्लब चण्डीगढ मिडटाऊन के मानवसेवा के 40 साल पूरे होने पर बधाई देते हुए राज्यपाल ने कहा कि रोटरी भारतीय संस्कृति के इन्हीं महान भावों से ओत-प्रोत है।

इससे पहले रोटरी इंटरनेशनल के पूर्व अध्यक्ष राजेन्द्र के० साबू ने विचार व्यक्त किए। रोटरी क्लब चण्डीगढ मिडटाऊन की नवनिर्वाचित अध्यक्ष डा० रीता कालड़ा ने क्लब की 40 साल की सेवा यात्रा के बारे में बताया। क्लब के पूर्व अध्यक्ष अमरजीत सिंह ने वर्ष 2016-17 के अपने कार्यकाल की उपलब्धियों का विवरण प्रस्तुत किया और अध्यक्ष पद का कार्यभार डा० रीता कालड़ा को सौंपा। इसी प्रकार सचिव संदीप सिंह स्वहने ने नवनिर्वाचित सचिव जीतन भाम्बरी को कार्यभार सौंपा। इस अवसर पर रोटरी क्लब के पूर्व डिस्ट्रिक्ट गवर्नर साजू पीटर, पूर्व अध्यक्ष टी०एस० आनन्द आदि उपस्थित थे।







